

प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित/वारण्टी/गैंगेस्टर/अवैध असलहा/बलात्कार/पोक्सो आदि से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरादमगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों का विवरण-

थाना-फूलपुर

चोरी की मोटरसाईकिल व मोबाईल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 6.10.2020 को श्री कमलेश पुत्र दलसिंगार निवासी टेउंगा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ मय हमराह रमेश पुत्र दलसिंगार निवासी ग्राम टेउगा थाना फूलपुर आजमगढ़ उमेश पुत्र लालता प्रसाद व लालता प्रसाद पुत्र बलई निवासीगण ग्राम तलवा मानपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर हिन्दी लिखित बाबत आज दि 05/6.10.20 की रात्रि को अज्ञात चोरो द्वारा गाँव के ही उमेश पुत्र लालता प्रसाद के घर से एक अदद मोबाईल चुराकर पुनः प्रार्थी के घर से उसकी मोटरसाईकिल सुपर स्पलेण्डर नं 0 UP 50 AK 4808 जो उसके बरामदे में खडी थी को चुराकर लेकर जाने शोर गुल की आवाज पर मोनू यादव पुत्र विश्वनाथ यादव साकिन सखवा थाना लम्भुवा जनपद- सुलतानपुर को मौके से प्रार्थी व ग्रामवासियों द्वारा चोरी किये हुये एक अदद मोबाईल कम्पनी एम 0आई तथा एक अदद मोटरसाईकिल सुपर स्पलेण्डर नं 0 UP 50 AK 4808 के साथ मौके से पकड लेने के सम्बन्ध में दाखिल किये जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु 0अ0सं0 242/20 धारा 457/380/411 भादवि बनाम- 1. मोनु यादव पुत्र विश्वनाथ यादव निवासी सखवा थाना लम्भुवा जनपद जौनपुर 2. तौसीफ पुत्र मोतीन निवासी मानपुर टेढ़वा थाना फूलपुर आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया। मौके से रात्रि होने के कारण तौसीफ पुत्र मोतीन निवासी मानपुर टेढ़वा थाना फूलपुर आजमगढ़ भागने में सफल रहा।

थाना-फूलपुर

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दि 03.10.2020 को मो 0 गालिब पुत्र सुलेमान साकिन मेडियार थाना फूलपुर आजमगढ़ द्वारा उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर बाबत खुद की पुत्री अशका उम्र करीब 16 वर्ष जो अपनी माँ मुसरत के साथ कस्बा फूलपुर में टेढ़वा गली में रहती थी को पडोसी सारिक उर्फ सोनू पुत्र मखन्चू निवासी टेढ़वा गली कस्बा व थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने तथा पूछने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दाखिल किये थे जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु 0अ0सं0 240/20 धारा 363,366,506 भादवि बनाम साकिर उर्फ सोनू पुत्र मखन्चू निवासी टेढ़वा गली कस्बा व थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 6.10.2020 को व 0उ0नि0 श्री सुशील कुमार दुबे मय हमराहियान द्वारा थाना स्थानीय के मु 0अ0सं0 240/20 धारा 363,366,506 भादवि0 से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त साकिर उर्फ सोनू पुत्र मखन्चू निवासी टेढ़वा गली कस्बा व थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ मुखबिर खास की सूचना के आधार पर मनरा तिराहे से समय 5.30 बजे सुबह नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया गया।